



Adcon Capital Services Limited

CIN: L67120MP1994PLC00851

Corporate Off: 47A, Kali Krishna Tagore Street, Ground Floor, Police Station Posta, Ward No. 22, Kolkata - 700007

Tel: +91 33 2259 8877 | Website: www.adconcap.com | Email: adconcapital@gmail.com

November 10, 2023

The Deputy Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
P. J. Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001

Ref: Scrip Code: 539506

Sub: Newspaper advertisement pertaining to Financial Results of Q2FY24

Respected Sir or Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please find enclosed copies of the newspaper advertisement pertaining to financial results of the Company for the 2nd Quarter ended on 30th September 2023 for the Financial Year ended on 31st March 2024. The advertisements were published in English and Hindi newspapers on November 10, 2023.

This information will also be hosted on the Company's website, at www.adconcap.com

Thanking You,

Yours Faithfully,
For ADCON CAPITAL SERVICES LIMITED

PIYUSH SARAF
DIN: 02578675
MANAGING DIRECTOR

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED
(formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kuria Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to SMFG India Credit Co. Ltd. (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)/Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) mentioned herein below. The reserve price, Earnest Money Deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

Borrower(s) / Guarantor(s) / Loan Account	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price, EMD & Last Date of Submission of EMD	Date and time of E-Auction
1. M/S HOTEL MANGLAM PARADISS 2. KAMLA W/O DHANJAI MAHESHWARI 3. DEEPAK S/O DHANJAI MAHESHWARI (Loan Account No. 21302091177379)	17-03-2023 Rs. 28,49,074/- (Rupees Twenty Eight lakh fourty nine Thousands seventy Four only) as on 10-03-23 Physical Possession 17-10-23	All that part and parcel of the property bearing house khasra no.115,116/3-118/3 part situated at panchwati colony face-3 sanjay sweets ke piche karond kala nagar nigam ward no-79 Bhopal (MP) area of plot- 1678 sq. feet BOUNDRIES EAST- Property of Bhagwan meena WEST- way NORTH- Property of Bajpayee ji SOUTH-Property of ramsroop ji	Reserve Price: Rs. 45,00,000/- (Rupees Forty-Five Lakhs) EMD Amount: Rs. 4,50,000/- (Rupees Four Lakh Fifty Thousands Only) Last date of EMD Deposit: 27/11/2023	Date: 28/11/2023 Time: 11:00 am to 01:00 pm (with unlimited extensions of 5 minute each)

For detailed of the sale, please contact **Deepak Verma 9301108484**; **Sanjay Singh Rathore-9993460061** and also for the detailed terms and conditions of the sale refer to the link provided in Fullerton India Credit Company Limited/Secured Creditor's website i.e. www.fullertonindia.com SD/-, Authorised Officer-
Date: 09/11/2023. Place: Bhopal SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

KOGTA FINANCIAL INDIA LIMITED
Registered Office: Kogta House, Azad Mohalla, Bijainagar-305624, Rajasthan, India | Email: info@kogta.in | www.kogta.in
S-1 Gopalbahi, Near Ajmer Pulia, Opp. Metro Pillar No. 143, Jaipur-302001, Rajasthan, India | Tel: +91 141 6767067

APPENDIX IV [See Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Kogta Financial (India) Limited, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice dated 24/08/2023 calling upon the Borrowers / Guarantor/Mortgagor Mr. Dharmendra Patidar (Applicant) Mrs. Jyoti Patidar (Co-ApPLICANT/Mortgagor) Mr. Kaluram Patidar (Co-ApPLICANT) Mr. Rup Singh (Guarantor) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 20,05,367/- (Rupees Twenty Lakh Five Thousand Three Hundred Sixty Seven Only) as on 24/08/2023 payable with further interest and other legal charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 04 of November of the year 2023. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The borrower/ mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Kogta Financial (India) Limited for an amount of being Rs. 20,05,367/- (Rupees Twenty Lakh Five Thousand Three Hundred Sixty Seven Only) as on 24/08/2023 and interest & expenses thereon until full payment

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY
All Piece and Parcel of Land and Building Plot/House No. 151, situated at Gram Lasudiyia Kulmi, PH.No. 05, Tehsil Tonkhurd, District Dewas (M.P.) owned by Mrs. Jyoti Patidar W/o Mr. Dharmendra Patidar Admeasuring - 300 Sq. Feet (306.69 Sq. Meters) bounded: EAST- House of Babul Ji, WEST-House of Umraj Ji, NORTH-Local Way, SOUTH-Local Way
Place- Lasudiyia Kulmi, Dewas, MP Date: 04 November 2023
Authorized Officer: Kogta Financial (India) Ltd

RELIANCE
Asset Reconstruction

11th Floor, North Side, R-Tech Park Western Express Highway, Goregaon (East) Mumbai-400063

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Properties)
See Rule 8(1)

Whereas, The Authorized Officer of Reliance Asset Reconstruction Company Limited Acting In Its Capacity As Trustee Of RARC 071 Trust Vide Agreement Dated 31st March 2022 Under The Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 And In Exercise Of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Issued A Demand Notice Dated 23-08-2022 Calling Upon The Borrower And Guarantors To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of Receipt Of Said Notice.

The Borrower and Guarantors Having Failed to Repay the Amount, Notice Is Hereby Given To The Borrower And Guarantors And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property Described Herein Below In Exercise Of Powers Conferred On Him Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rule 8 Of The Said Act On 2-11-2023

The Borrowers and Guarantors In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealing With The Property Will Be Subject To The Charge Of Reliance Asset Reconstruction Company Limited For The Amount And Interest Thereon. The Borrower's Attention Is Invited To Provisions of Sub-Section 8 Of Section-13 Of The Act, In Respect Of Time Available, To Redeem The Secured Assets.

Borrowers / Guarantors	Description Of the Properties Mortgaged	1. DATE OF POSSESSION 2. DEMAND NOTICE DATE 3. AMOUNT DUE IN RS.
Name of the Borrower/Co-Borrowers and Their Addresses- Mr. Madhavkant, Mrs. Neetu Sharma-Chhikau, Datia, Madhya Pradesh - 475675, Vijay Rudra Vir Pratap Singh Shiksha Samiti-Guptapura, Patel Market, Dabra, Gwalior, Madhya Pradesh - 475110 Loan Account No.: 123101000072 Loan Sanctioned Amount - 10,10,000 (Ten Lakh Ten Thousand Only)	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND ALONG WITH HOUSE BUILDING, TOTAL AREA 800 SQ. FT. BEARING SURVEY NO. 481/MIN - 1. 482 OF VILLAGE RAMGARH, TEHSIL DABRA DISTRICT, GWALIOR (MADHYA PRADESH), BOUNDED BY: EAST - HOUSE OF JEETU BOHARE, WEST - HOUSE OF SARDAR JI. NORTH - 20 FT ROAD. SOUTH - HOUSE OF SARDAR JI. Name of the Mortgagor: Madhavkant Sharma	1. 2-11-2023 2. 23-08-2022 3. Rs. 9,48,043/- (Rupees Nine Lakh Forty Eight Thousand forty Three Only) due and payable as on 06-07-2022 with applicable interest from 07-07-2022 until payment in full.

Date: 09/11/2023 Place: Madhya Pradesh (Authorized Officer) Reliance Asset Reconstruction Company Limited

ADCON CAPITAL SERVICES LIMITED
Regd. Office : 417, Chetak Centre NX, Near Hotel Shreemaya RNT Marg, Indore, Madhya Pradesh, 452001
CIN : L67120MP1994PLC008511 Email : adconcap@gmail.com, Website : www.adconcap.com

Statement of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Half Year ended 30th Sept 2023

₹ In Lakhs

Sr. No.	Particulars	Un-Audited		Year Ended 31 st March 2023
		Quarter ended 30 th Sept 2023	Quarter ended 30 th Sept 2022	
1	Total Income from Operations (Net)	41.91	5.33	88.69
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	32.84	(29.61)	71.73
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	32.84	(29.61)	71.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	24.29	(27.69)	53.05
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	132.81	(27.69)	121.69
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	3,018.435	3,018.435	3,018.435
7	Face Value of Equity Shares	1,000	1,000	1,000
8	Other Equity	-	-	39.53
9	Earning Per Share (before Extra-Ordinary Items) of ₹ 10/- each (for continuing and discontinued operations)	0.01	(0.01)	0.02
(a) Basic		0.01	(0.01)	0.02
(b) Diluted		0.01	(0.01)	0.02

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th Sept 2023 filed with the Stock Exchange/s under Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, 2015. The full format of the Un-Audited results for the Quarter & Half Year ended 30th Sept 2023 is available on the Company website "www.adconcap.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com.

For Adcon Capital Services Limited Sd/-
Place : Indore Piyush Saraf
Date: November 7, 2023 Whole-Time Director

Equitas Small Finance Bank Ltd
(FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)
Registered Office : No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002.

DEMAND NOTICE - NOTICE UNDER SECTION 13 (2) OF THE SARFAESI ACT, 2002

NOTICE is hereby given that the following borrower/s have availed loan from Equitas Housing Finance Limited (EHL) / Equitas Finance Limited (EFL) / Equitas Small Finance Bank Ltd (ESFB). The said borrower/s had/have failed to pay installments and their loan account has been classified as Non-Performing Asset as per the guidelines issued by RBI. The details of the secured immovable property/ies, loan and the amounts outstanding as on date payable by the borrower/s are mentioned below. The borrower/s and the public in general are informed that the undersigned being the Authorized Officer, the secured creditor has initiated action against the following borrower(s) under the provisions of the SARFAESI Act, 2002 and not to deal with the said property, on failure to repay the outstanding dues indicated against their names within 60 (Sixty) days of this notice, the undersigned will exercise any one or more of the powers under sub-section (4) of Section 13 of the SARFAESI Act, including power to take possession of the property/ies and sell the same

Sr No	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s) (NAME OF THE BRANCH)	13(2) Notice Date Amount	Description of Secured Asset (Immovable Property)
1	BRANCH - Chhindwara Loan No - SECNDWR0289294 BORROWER - Mr. Rajesh Raisane GUARANTOR - Mr. Rupesh Raysane	25-06-2021 & 391515	All that Piece and Parcel K.m.103/2, B.no 314 P.N.M of Partaca Chhindwara Bounded on North by: Seelar Cano, South by: 12 Ft Road, East by: Seelar Cano, West by: Plot of Satish Malve. Situated at within the Registration District of Chhindwara.
2	BRANCH - Anand Nagar Loan No - SEANDNR028922 BORROWER - Mr. MUKESH KUMAR SAHU GUARANTOR - Mrs. SUNITA BHAI	04-09-2023 & 1407623	All That Piece And Parcel of One Plat No.260, which is part of land Khasra No. 49/2, Situated at Shiv Nagar Colony, Village Bhanpur, Ward No.72, Tehsil- Huzur, District- Bhopal, M.P. Total Extent Of Ad- Measured Area 30 x 30 = 900 Sq.Ft./ 83.64 sq.mtr. North by: Colony Road, South by: Plot No. 261, East by: Service lane, West by: Plot No.249 Measurement -900 Sq.Ft. Situated at within the Sub-Registration District of Bhopal and Registration District of Bhopal
3	BRANCH - Anand Nagar Loan No - EMFANDNR0024511 BORROWER - Mr. RAHUL NEMA GUARANTOR - Mrs. MEENA NEMA	04-09-2023 & 1006008	All That Piece and Parcel of land and House /Residential No.-H-18 Situated at Survey Number-51/1/2/1, 52, Part ShivNagar Colony, Near Veshnav Nagar, Gram Bhanpur, Nagar Nigam Ward no.-73, Tehsil-Huzur, Bhopal and District-Bhopal, M.P. Total Ad-measuring area up-to 600 Sq.Ft. North by : Colony Road, South by : House No.-H-10, East by : House No.-H-19, West by : House No.-H-17 Measurement : 600 sq.ft. Situated at within the Sub-Registration District of Bhopal and Registration District of BHOPL
4	BRANCH - Guna Loan No - SEIBGNA0288633 BORROWER - Mr. HARI SINGH RAGHUWANSHI GUARANTOR - Mrs. SAROJ BAI RAGHUWANSHI	04-09-2023 & 310342	All That Piece and Parcel of land and Plot/Residential House Situated at Guna Village Nanakhedhi Plot No. D-4 P.H. No. 74 Khasra / Land Survey No. 222 with in the Municipal Area of Guna Municipal Corporation Ward No. Tehsil and District Ashok Nagar total Admeasuring area of 710 sq.ft. North by : Plot No. D-3, South by : Plot No. D-5 parasram , East by : Road , West by : Other land Measurement : 710 Sq. Ft. Situated at within the Sub-Registration District of Guna and Registration District of Guna.
5	BRANCH - Bhaora Loan No - SEBIOA0270050 BORROWER - Mr. RAVI SEN BHAROSA, Mr. AVADHNARAYAN, Mrs. RACHANA BAI	04-09-2023 & 276486	ALL THE PIECE AND PARCEL OF LAND ALONG WITH BUILDING SITUATED AT- SURVEY NO. 222/1, P.H.NO-08, VILL-KATHOLI, TEHSIL-CHACHODA, DISTRICT-GUNA M.P. TOTAL AD MEASURING OF AREA -600 Sq. Ft. North by : 15 Ft. land of seller, South by: Plot of Kailash N, East by : Plot of Nand Kishor Sen , West by : Land of Phariad Ahmad Measurement: 600 Sq.Ft. Situated at within the Sub-Registration District of Guna and Registration District of Guna.
6	BRANCH - Rewa Loan No - EMFIBRWA0008487 BORROWER - Mr. VAIBHAVA SINGH GUARANTOR - Mrs. MANJU SINGH	04-09-2023 & 352662	Applicant: Mr. Vaibhav Singh All that piece and parcel of land and building, comprised in out of Khasra No 352/2/Ka With an extent of 720 Sqfeet situated at Mauza Padra, Patwari Halka 26, RIC Huzur Tehsil Huzur, Distt Rewa, M.P. Bounded as North by: Land of Ram Pratap, South by : Land belongs to Seller , East by Land belongs to Vijay Singh, West by: Road Measurement: 720 Sqfeet. Situated at within the Sub-Registration District of Sub Registrar office and Registration district of Rewa.
7	BRANCH - Rewa Loan No - SEIBRWA0215575 BORROWER - Mrs. Neelam Singh GUARANTOR - Mr. Dhruwad Singh	30-09-2023 & 687116	Applicant: Mr. Dhruwad Singh All that piece and parcel of land and building, comprised in out of Khasra No. 38/3, Rakba 0.020 Hec. or 40X5 = 2200 Squire Feet or 204.406 Squire Mit. Situated at Mouza Madhi J.N. 490, Gram Panchayat Atriya, Patwari Halka Amwa - 16, Circle - Bankuinya Block Rewa, Teh. Huzoor, Distt. Rewa M.P. Bounded as:- North :- Remaining land of seller, South :- 25 Ft With nail, East :- Remaining land of seller, West :- Plot of Danyanti Singh. Situated at within the Sub-Registration District of Sub Registrar office and Registration District of Rewa.
8	BRANCH - Damoh Loan No - SEDAMOH0376931 BORROWER - Mr. Shuklal Ahirwal GUARANTOR - Mrs. Halli Bai Ahirwal	30-09-2023 & 349295	All that piece and parcel of land an building, Comprised in Part of Khasra No 17/2, with extent of 2400 Sq.Ft. or 223.04 sq.mtr p.h.no. 32/39 situated at Mauza-Karaiya Hajari, Teh. & Dist. Damoh, M.P. North by : Land belong to beni Shankar South by : Road, East by : Land belong to Kodu Lal, West by : Land belong to seller. Measurement: 2400 Sq.Ft. Situated at within the Sub-Registration District of Sub Registrar Office and Registration District of Damoh Constructed Building on Ground floor.
9	BRANCH - Adhartal Loan No - SEADRTL0137161 BORROWER - Mr. Brajesh GUARANTOR - Mrs. Satyavatti	30-09-2023 & 242644	All that piece and parcel of land and building, comprised in abadi khasra no - 390, with an extent of 600 sq.ft. situated at mauza - mohaniya, halka no - 9/20, Teh - Panagar and Dist - Jabalpur M.P Bounded as North by : House belongs to Ajay, South by : House belongs to Ramsanehi, East by : House belongs to Uditi, West by : Road Measurement : 600 sq.ft Situated at within the Sub- Registration District of Sub Registrar Office and Registration District Jabalpur.
10	BRANCH - Pipariya Loan No - SEPPRYA0140648 BORROWER - Mr. Vinod Kumar Raghuvanshi GUARANTOR - Mrs. Sudha Bai Raghuvanshi	30-09-2023 & 185853	All that piece and parcel of land situated in Village Beejanwada Tehsil Pipariya Distt Hoshangabad Khasra No. 17/4 Area 1200 Sq.Ft. Boundaries :- North by : 15 feet Road, South by : Plot of Rajesh Purniya , East by : Plot of Sugreev Yadav, West by : Land Of Sayanarayan, Situated at within the Sub-Registration District of Pipariya and Registration District of Hoshnagabad
11	BRANCH - Ratlam Loan No - SEINDRE0117451 BORROWER - Mr. Shripreshad GUARANTOR - Mrs. Kala Bai Gurjar	30-09-2023 & 198210	All the piece and parcel of immovable property /house situated at village Undwa Teh & Dist. ratlam Patta of land issued by village panchayat Mundi in the name of Mr. shreeprasad s/o Karansingh Gurjar dated 03/02/2017 Measuring land as per attached map. Total Area - 3710 Sq.Ft. Bounded by :- East: Road, West: Land of Lalhans , North: house of Ramhari, South: Road. Situated at within the Sub-Registration District of Ratlam and Registration District of Ratlam.
12	BRANCH - Chhindwara Loan No - SECNDWR0193355 BORROWER - Mr. Rambharosh Yaduvanshi GUARANTOR - Mrs. Pramila Yadovanshi, Mr. Ghisulal Yadhuvanshi	30-09-2023 & 144775	All the piece and parcel of property situated at tighai P.H.No.36 B.NO. RIC.....Teh. umreth Dist. Chhindwara (M.P.) bearing khasra no.177 area 600 Sq.feet, with boundaries as East - H/O hukamchand, West - H/O bashodi, North- Road, South - Self land. Situated at within the Sub - Registration District of Chindwara and Registration District of Chindwara
13	BRANCH - Ujjain Loan No - SEUJAIN0213950 BORROWER - Mrs. Vishnu Kalu GUARANTOR - Mr. Kaluram, Mr. Subhash	30-09-2023 & 157045	All that piece and parcel of land Situated at Jاجر on part of land survey No. 712/3 situated at village ingoriya tehsil badnagar dist. Ujjain. Total area -41.07 sq.mtr. and bounded on the - Boundaries EAST : House of Mr.Bharat, WEST: Road, NORTH : Remaining land of SELLER, SOUTH Remaining land of SELLER Situated within the Sub-Registration Office of Ujjain and Registration District of Ujjain
14	BRANCH - Bina Loan No - SEBHO01008638 BORROWER - Mr. Kallu Kurmi GUARANTOR - Mrs. Beby Kurmi	30-09-2023 & 383348	All that piece and parcel of land building Comprised Kh.No. 636/1 in area 750 Sqft. Situated in Rahagarh Naka Kushi Bhau Thakre Ward, Kharai Taluk Khurai. District Sagar and bounded on the East : Land of Seller, West: Road, North : Land of Kamlesh sale by Seller, South: Land of seller. Situated within the Sub Registration office of Khurai. And Registration District of Sagar
15	BRANCH - Ratlam Loan No - SEINDRE0112626 BORROWER - Mr. Dinesh GUARANTOR - Mrs. Shakuntala Gurjar	30-09-2023 & 159695	All the piece and parcel of immovable property /house situated at village Undwa Teh & Dist. ratlam Patta of land issued by village panchayat Mundi in the name of Mr. Dinesh s/o Sunderlal Gurjar dated 29/03/2017. Measuring land as per attached map. Total Area-2655 Sq.Ft. Bounded by - East: common way, West: Govt. land, North: house of Indralingh, South: common way situated at within the Sub -Registration District of RATLAM and Registration District of RATLAM.
16	BRANCH - Betul Loan No - SEBETUL0177806 BORROWER - Mr. Gulabhar Likhitar GUARANTOR - Mrs. Urmila Likhitar, Mr. Sahebrao Likhitar	30-09-2023 & 218654	Applicant: GULABRAV LIKHITAR. All The Piece And Parcel of The Land and plot/ Residential house situated at tehsil athar and dist Betul PH.No.27 sawangi khasra/ Land Survey No.163 WITHIN THE GRAM PANCHAT area of sawangi Tehsil Athar Dist Betul total admeasuring area of 645 sq.ft. North by : House of aghra road, South by : Road, East by : vacant road, West by : house of pandurang Measurement : 645 sq.ft. (59.94 SQM) Situated at within the Sub-Registration District of Betul and Registration District of Betul
17	BRANCH - Bhaora Loan No - SEBIOA0233076 BORROWER - Mr. Hemraj GUARANTOR - Mrs. Seema	30-09-2023 & 130480	Applicant: HEMRAJ VISHWAKARMA ALL THE PIECE AND PARCEL OF LAND ALONG WITH BUILDING SITUATED AT VILL WARD N.05, P.H.NO - 60, PART OF SURVEY NO -526/1 KHADAN MOHALLA SUTHALYA TEHSIL - BIAORA, DISTRICT - RAJGARH M.P. TOTAL ADMEASURING OF AREA - 300 Sq.Ft. (27.881 SQ. METER) North by : 12 Ft wide road , South by : Plot of Other, East by : House of jagdeesh vishwakarma , West by : 5 Ft wide land of seller. Measurement: 300 Sq.Ft., (27.881 SQ. METER) Sq.Ft. Situated at within the Sub-Registration District of BIAORA and Registration District of BIAORA.
18	BRANCH - Ratlam Loan No - SERTLAM0187024 BORROWER - Mr. Harinarayan GUARANTOR - Mrs. Badgibai, Mr. Rameshwar	30-09-2023 & 155809	All the piece and parcel of immovable property /house situated at PH no 35 survey no 268 village Jadasakala Tehsil & Dist. Ratlam, totally ad measuring Area is 620 sq.ft Patta of land issued by Tehsil office Ratlam in the name of Mr. Rameshwar s/o Saligram ji. Measuring land as per attached map. Total Area-620 Sq.ft. Bounded by:- East: Mayabai, West: Shyamubai, North: Mayabai, South: way. Situated at within the Sub-Registration District of RATLAM and Registration District of RATLAM
19	BRANCH - Ujjain Loan No - SEINDRE0102232 BORROWER - Mr. Shrawan Singh GUARANTOR - Mrs. Dhapu Bai	30-09-2023 & 192445	All the piece and parcel of immovable A House No. 190 ward no. 05 P.H. No. 74 situated at Village Khajuriya Rehvari tehsil and Dist. Ujjain M.P. Total Area :- 1008.00 SQ. Ft. bearing as per the Map & other documents owner certificate from office Gram panchayat Khajuriya Rehvari Tehsil And Dist.Ujjain (M.P.) dt. 10/02/2017 and got mutated his name in the name of office Gram panchayat Khajuriya Rehvari Tehsil And Dist. Ujjain (M.P.) dt. 10/02/2017 and take Building permission and approved map and Affidavit Purpose of N.O.C. certificate dt. 13/02/2017 in favor in favor of Mr. Shrawan Singh s/o Mr. Narayan singh R/o Village Khajuriya Rehvari tehsil and Dist. Ujjain. Measuring land as per attached map. Total Area 1008.00 sq.ft. Boundaries: East:Gali, West:Road, North :house of Sumer singh, South : house of Antar singh. Situated at within the Sub-Registration District of Ujjain and Registration District of Ujjain
20	BRANCH - Betul Loan No - SEBETUL0138949 BORROWER - Mrs. R.Kusum Rathore GUARANTOR - Mr. K.Rajendra Rathor	30-09-2023 & 242651	Co-Applicant : RAJENDRA RATHORE, All That Piece and Parcel of land and Plot/Residential House Situated at Betul Kheidanwalgad Khasra / Land Survey No. 94 P.H. No. 25 of the Tehsil and Distrit Betul total Admeasuring area of 840 sq.ft North by : kalooram, South by : Road, East by : Ghundu, West by : Kalooram Measurement : 840 sq.ft (78.06sqm.) Situated at within the Sub-Registration District of Betul and Registration District of betul
21	BRANCH - Chhindwara Loan No - SECNDWR0215635 BORROWER - Mr. Beni Prajapati GUARANTOR - Mrs. Sunita Prajapati	30-09-2023 & 251438	Applicant: BENI PRAJAPATI. ALL THAT PIECE AND PARCEL OF LAND AND BUILDING SITUATED AT: BAKE MOUJA, VILLAGE BHAIKOLA PART OF REVENUE SURVEY NO. 165/1, BEARING PH. NO. 43/74, TEHSIL & DISTRICT CHHINDWARA, M.P. TOTAL EXTENT OF AD-MEASURED AREA 30*50 = 1500 SQ.FT. North by : HOUSE OF SUBHASH, South by : HILL, East by : REMAINING LAND OF SELLER, West by : REMAINING LAND OF SELLER , Measurement : 30*50 = 1500 SQ.FT. Situated at within the Sub-Registration District of CHHINDWARA and Registration District of CHHINDWARA
22	BRANCH - Khargone Loan No - SEKRGNE0360386 BORROWER - Mrs. Sevanti Bai GUARANTOR - Mr. Kadwa	11-10-2023 & 487571	All The Piece And Parcel of The Land And Building SITUATED AT- VILAGE GASWAN, P.H.No.35, KHASRA NO. 201, TEHSIL AND DISTRICT KHARGONE (M.P) TOTAL AD MEASURING OF AREA IS - 276 Sq. Ft. (25.72 Sq.Mtr). North by : Sadashiv, South by : Gali, East by : Gali, West by : Rewaram Measurement : 276 Sq. Ft. (25.72 Sq.Mtr) Situated at within the Sub-Registration District of KHARGONE and Registration District of KHARGONE
23	BRANCH - Katni Loan No - SEKATNI0365373 BORROWER - Mr. Braja Mohan Singh GUARANTOR - Mr. Yavraj Singh	11-10-2023 & 243250	All that piece and parcel of land and building, comprised in abadi Khasra no-41 (old) 425 (New), with an extent of 180 sq.ft. (1936.8 sq.ft), situated at mauza-Chargawan, halka no-66, Teh-Bahoribad (old) Sleemabad (New), Distt-Katni M.P. North by : Road, South by : Dolat Kachhi, East by : Anirudh Tiwari, West by : Sone Lal Kachhi Measurement : 1936.8 sq.ft. Situated at within the Sub-Registration District of Sub Registrar office and Registration District of Katni
24	BRANCH - Anand Nagar Loan No - SEANDNR0267518 BORROWER - Mr. Ritesh GUARANTOR - Mrs. Rachna	11-10-2023 & 136615	All The Piece And Parcel of one Plot No.167-A part of khasra no. 24/2/2 Situated At: - Village chhola behind Dashhra Medan ward no. 76 Tehsil-Huzur, District-Bhopal, M.P. Total Extent Of Area 300 Sq.Ft. or 27.88 mtr. Item-1 North by : Property of Shridhar, South by : 10 wide colony road, East by : Property of Meera Bai Kushwah, West by : Property of Gangaram. Situated at within the Sub-Registration District of Bhopal and Registration District of Bhopal.
25	BRANCH - Bhaora Loan No - SEBIOA0210338 BORROWER - Mr. H. Hemant Singh Rav GUARANTOR - Mrs. S. Sonu	11-10-2023 & 162021	Applicant: HEMANT SINGH RAV, All The Piece And Parcel of The Land An Building, Comprised in Survey No.804/1/12 and Out Of Survey No.804/1, with an extent of 200 Sq. Ft. And 150 Sq.Ft. Total 350 Sq.Ft. Situated at Village - Bhaora, Nagar Palika Parishad - Bhaora, P.H.NO.31, Ward NO.15, tatyta Topp Kunj Mogiya Mohalla Bhaora, Tehsil-Bhaora, Dist - Raigarh, M.P. North by : Lane From Seller 2, South by : House of Sonu Nigam, East by : Plot of Badam Bai, West by : Land of Seller 2. Measurement : 350 Sq.Ft. Situated at within the Sub-Registration District of Bhaora and Dist. Raigarh
26	BRANCH - Ujjain Loan No - SEINDRE0108549 BORROWER - Mr. Bheru Singh GUARANTOR - Mrs. Gendi Bai	11-10-2023 & 249755	All The Piece And Parcel of Immovable A House No. 80 Situated at Village Ranaheda ph. No.45 Tehsil Ghatiya Dist. Ujjain M.P. Total Area :- 4788.00 SQ.FT. bearing as per the Map & other documents owner certificate from office Gram panchayat Shankarpur Tehsil Ghatiya Dist. Ujjain (M.P.) dt. 23/01/2017 and got mutated his name in the name of his office Gram Panchayat Shankarpur Tehsil Ghatiya Dist. Ujjain (M.P.) Dt.23/01/2017 and take Building permission and approved map and Affidavit Purpose of N.O.C certificate dt.20/03/2017 in favor in favor of Mr.Bheru Singh s/o Mr. Nathuji R/o Village Ranaheda Tehsil Ghatiya Dist. Ujjain M.P. Measuring land as per attached map.Total Area :- 4788.00 sq. ft. Boundaries North by : Common Road, South by : Land of Mr.Darbar Singh, East by : House of Mr. bhanwer singh, West by : house of Mr. Darbar singh Situated at within the Sub-Registration District of Ghatiya and Registration District of Ujjain
27	BRANCH - Ratlam Loan No - SEINDRE0103747 BORROWER - Mrs. B. LALITA BAI GUJAR GUARANTOR - Mr. B.RAJESH GUJAR	16-10-2023 & 340608	All the piece and parcel of immovable property/house situated at survey no.50, plot no.82, village Ujni The & Dist. Ratlam Patta of land issued by village Panchayat Sarwanji nagar Tehsil Ghatiya Dist. Ujjain (M.P.) dt. 23/01/2017 and got mutated his name in the name of Mrs. Lalitabai, W/o. Badrilal GUJAR dated 07/02/2017. Measuring land as per attached map. Total Area -2500 Sq.Ft. North By:House of Ramchandra South by :Open Land, East By: Main Road, West By: House of Devial Measurement : 2500 Sq.ft. Situated at within the Sub-Registration District of RATLAM and Registration District of RATLAM.
28	BRANCH - Chhindwara Loan No - SECNDWR0306642 BORROWER - Mr. Dishant Chouriya GUARANTOR - Mr. Asadu Chouriya, Mrs. Sangeta Chauriya	20-10-2023 & 327828	All The Piece And Parcel of the Property situated at Chhindwara, p.h.no.19, b.no.177, RIC _____, Teh & Dist. Chhindwara (M.P.) bearing 962/74, area 7696 Sq. feet, with boundaries as: North by : Property of Seller, South by : land of sanudun, East by : Road, West by : Land of Chetrum. Situated at within the Sub-Registration District of Chhindwara and Registration District of Chhindwara
29	BRANCH - Chhindwara Loan No - SEJBLPR0134164 BORROWER - Mr. Gopal Dehariya GUARANTOR - Mrs. Kala Dehariya	20-10-2023 & 396902	All The Piece And Parcel of property situated at Atarwada, P.h.no.75, B.no., RIC Chhindwara, Teh Chhindwara Dist. Chhindwara (M.P.) bearing khasra no. 3(5)1, area 900 Sq.feet, with boundaries as: North by : Road, South by : Land of Suburam, East by : Plot of Suburam, West by : House of Gopal. Measurement : 900 Sq.feet Situated at within the Sub-Registration District of Chhindwara and Registration District of Chhindwara

Date - 09.11.2023, Place - MP. Authorized officer, Equitas Small Finance Bank Ltd

ONLINE INFORMATION TECHNOLOGIES LIMITED
Regd Office: 205, Haribor Roy Market, 2nd Floor A.T. Road, Near Saraf Building, Kamrup, Guwahati, Assam, India - 781001
Corp. Office : 217, Sahapur Colony, Ground Floor, Kolkata, West Bengal, India - 700053
(CIN : L74140AS1985PLC002335)
Email: online.information@yahoo.com Website: onlineinfotech.co.in Tel: +91 9163513015

Unaudited Financial Results of Online Information Technologies Limited for the quarter and half year ended September 30, 2023 prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (IND-AS) (Amount in Rs. Lakhs)

Statement of Unaudited Financial Results For The Quarter and Half Year Ended 30th